



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1978/अग्रहायण 4, 1900
No. 521] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1978/AGRAHAYNA 4, 1900

इस भाग में धिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1978

क्र. आ. 681(अ)/उ. वि. वि. अ/29ख/75.—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि रेशे (फाइबर) की कतार में लगभग
50,000 स्विडल की क्षमता तक के सभी औद्योगिक उपकरणों को उक्त अधिनियम
की धारा 10, 11, 12 और 13 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से,
निम्नलिखित शर्तों के अधीन, छूट देती है, अर्थात्:—

(1) विनिर्माण की जाने वाली वस्तुओं में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो
भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) की अधिसूचना सं. 98अ--उ. वि. वि. अ/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है।

(2) औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54), अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के क्षेत्र के अन्तर्गत न हो।

2. यह अधिसूचना ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना सं. आ. 98अ--उ. वि. वि. अ/29/ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है और उसका अल्पीकरण करने वाली नहीं है।

[संख्या--12(184)/एल. पी./78]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1978

S. O. 68(E)/IDRA/29B/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby exempts all industrial undertakings engaged in the spinning of man-made fibres up to a capacity of 50,000 spindles from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder subject to the following conditions, namely :—

- (1) The articles of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, as amended from time to time.
- (2) The industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

2. This notification is in addition to and not in derogation of notification No. S. O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February 1973, referred to above.

[No. 12(184)/LP/78]

P. C. NAYAK, Joint Secy.